



अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन का प्रारूप संविदा के आधार पर नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ

<p>1. पूरा नाम: श्री/कुमारी/श्रीमती (बड़े अक्षरों में लिखें, उपनाम पहले लिखा जाए)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> स्वप्रमाणित नवीन पासपोर्ट आकार को फोटो चिपकाएं </div>	
<p>2. पिता/पति का नाम</p>		
<p>3. (ए) पता</p>	<p>औषधालय/डिस्पेंसरी</p>	<p>आवास</p>
<p>(बी) फोन नं.</p>		
<p>(सी) मोबाइल नं.</p>		
<p>(डी) ई-मेल</p>		
<p>(ई) बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 स्थित बैंक की डिस्पेंसरी से अनुमानित दूरी</p>		
<p>(एफ) ला-प्लास अधिकारी फ्लैट्स, शाहनज़फ़ रोड, हज़रतगंज, लखनऊ-226001 से अनुमानित दूरी</p>		
<p>4. जन्म तिथि और 06.08.2024 को आयु</p>		
<p>5. जन्मस्थान और अधिवास</p>		

6. राष्ट्रियता				
7. जाति				
8. शैक्षणिक योग्यता:				
डिग्री/ डिप्लोमा	विश्वविद्यालय/बोर्ड	पास करने का वर्ष	श्रेणी / रैंक	
9. चिकित्सा क्षेत्र में पूरा किए गए किसी अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम का विवरण।				
10. अनुभव का विवरण (केवल स्नातक के बाद प्राप्त अनुभव ही दिया जाए)				
अनुभव	से	तक	अवधि	
			वर्ष	माह
अस्पताल (फिजिशियन के रूप में)				
सामान्य चिकित्सक के रूप में				
11. कोई अन्य कारक जिसे आवेदक अपने आवेदन पर विचार करने के लिए संज्ञान में लाना चाहता हो				

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित हूँ तथा इस आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ तथा यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं नोट करता/करती हूँ कि यदि उपरोक्त कथनों में से कोई भी गलत अथवा मिथ्या पाया

जाता है या यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी या विवरण छिपाया गया है या छोड़ दिया गया है, तो मेरी सेवाएँ बिना किसी नोटिस अथवा नोटिस के बदले मुआवजे के बिना रद्द / समाप्त की जा सकती हैं।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान:

अनुदेश:

ए. इस फॉर्म में सभी विवरण आवेदक द्वारा स्पष्ट लिखावट में भरे जाने चाहिए।

बी. जिन आवेदनों में मांगे गए पूर्ण विवरण नहीं होंगे, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सी. आवेदन के साथ जाति, आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।

डी. आवेदक द्वारा प्राप्त अनुभव के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाण पत्र में झूटी के घंटों और झूटी की प्रकृति का विवरण अवश्य होना चाहिए। (यदि अभ्यर्थी किसी संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसका विवरण और कार्य के घंटों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)
